


॥ श्री ॥

महेश्वरचन्द्रचन्द्रिका ।

जिसे

क्षत्रियकुलप्रख्यात रैकवारवशप्रभूत
श्री ठाकुर गुमानसिहात्मज ठाकुर
महेश्वरवक्ससिंह जी तालुकेदार
रामपुर मथुरा जिला सीतापुर ने
सज्जन लोगो के प्रसन्नतार्थ
रचकर प्रकाशित की ।



काशी ।

भारतजीवन प्रेस मे मुद्रित हुई ।

सन् १८६६ ई०

FILE NO

भारत जीवन प्रेस काशी